

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 547] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 1967/अग्रहायण 13, 1889

No. 547] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 1967/AGRAHAYANA 13, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December 1967

S.O. 4202.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

COUNCIL OF STATES

Bye-Election to fill Casual Vacancy

"In pursuance of Section 53(2) of the Representation of the People Act, 1951, I declare that Panda Brahmananda of Gandhi Nagar, P.O. Berhampur, District Ganjam, Orissa has been duly elected by the elected members of the Orissa Legislative Assembly to fill the vacancy in the Council of States caused by the death of Shri Mohammad Haneef.

Place : Assembly Secretariat, New Capital, Bhubaneswar.

(Sd.) N. RATH,
Returning Officer."

[No. F. 5(33)/67-Elec.]
V. N. BHATIA, Secy.

(1777)

